



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 श्रावण 1940 (श0)
(सं0 पटना 763) पटना, बृहस्पतिवार, 9 अगस्त 2018

सं० वि०(27)पे०को०-24/2018-654

वित्त विभाग

संकल्प

8 अगस्त 2018

विषय :- वित्त विभागीय संकल्प सं०-755, दिनांक 20.10.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों का दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से पेंशन पुनरीक्षण का कार्य पेंशन वितरण प्राधिकार (बैंक/कोषागार) के स्थान पर महालेखाकार, बिहार को सौंपने के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-755, दिनांक 20.10.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को सप्तम राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पेंशन पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प के तहत पेंशन पुनरीक्षण के कार्य का दायित्व पेंशन वितरण प्राधिकार (कोषागार/बैंक) को दिया गया है।

2. वित्त विभागीय संकल्प सं०-755, दिनांक 20.10.2017 में पेंशन पुनरीक्षण हेतु दो सूत्रों का उल्लेख करते हुए इनमें से जो अधिक हो, उसे ही अंतिम पेंशन निर्धारित करने का प्रावधान है। द्वितीय सूत्र के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण का कार्य पेंशन प्रदायी बैंकों द्वारा कर दिया गया है। प्रथम सूत्र के क्रियान्वयन में बैंकों के स्तर पर अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। अतः दिनांक 01.01.2016 के

पूर्व के पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण में आ रही समस्याओं के निराकरण का मामला सरकार के विचाराधीन था ताकि उक्त संकल्प के अनुरूप पेंशन पुनरीक्षण का लाभ शीघ्र ही पेंशनरों को मिल सके।

3. सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0-755, दिनांक 20.10.2017 के आलोक में दिनांक-01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण का कार्य पेंशन वितरण प्राधिकार (बैंक/कोषागार) के जगह महालेखाकार, बिहार के स्तर से सम्पन्न होगा। महालेखाकार, बिहार अपने अभिलेखों अथवा आवश्यक होने पर सेवानिवृत्त कर्मियों के संबंधित कार्यालय से वांछित सूचना प्राप्त कर पुनरीक्षित प्राधिकार निर्गत करेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राहुल सिंह,

सचिव(व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 763-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>